

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

Agriculture-oriented Education

*172. Shri Lilaadhar Kotoki:
Shri Yashpal Singh:
Dr. Ranen Sen:
Shri R. Barua:

Will the Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation be pleased to state:

(a) whether Government have felt the need for making education agriculture-oriented in order to develop agriculture on modern and technological lines; and

(b) if so, the measures taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) This matter has been considered by the Education Commission appointed by the Ministry of Education. The Commission has since submitted its Report which is being considered by the Government.

(b) In view of the above the question does not arise at this stage.

बम्बई पत्तन न्यास के चालकों (पायलटों) द्वारा हड़ताल

*173. श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स० मो० बनर्जी :

श्री श्रींकार लाल बेरवा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरधा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1966 में बंबई पत्तन न्यास के चालकों (पायलटों) ने अनिश्चित काल के लिये हड़ताल कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) 28 सितम्बर को आधी रात से बम्बई पत्तन के पाइलटों, ड्रक मास्टर्स और घाट मास्टर्स ने हड़ताल की । 1 अक्टूबर 1966 को 13.30 बजे हड़ताल समाप्त की गयी ।

(ख) इन अधिकारियों ने पाइलटों में से एक पाइलट के विरुद्ध पोर्ट ट्रस्ट कंडक्ट नियमों को भंग करने के लिए ट्रस्ट के अनुशासनात्मक जांच करने के निर्णय में आपत्ति की ।

(ग) चूंकि स्थानीय बातचीत के फलस्वरूप हड़ताली अधिकारियों और पोर्ट ट्रस्ट के बीच समझौता हो गया था अतः भारत सरकार द्वारा कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं हुई ।